

प्रेस नोट

थाना बिलसण्डा पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में क्षेत्राधिकारी बीसलपुर के कुशल निर्देशन में थाना बिलसंडा पुलिस द्वारा दिनांक 10.01.2023 को थाना पुलिस के द्वारा ग्राम पहाडगंज थाना बिलसण्डा से अपने पत्नी का गला दबाकर हत्या करने वाले पति फैजान अली पुत्र कुर्वाण अली को आला कत्ल (प्लास्टिक की रस्सी) के साथ किया गिरफ्तार।

दिनांक 06.12.2022 को फैजान अली पुत्र कुर्वाण नि० ग्राम पहाडगंज थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत ने थाने पर बसीम पुत्र बुन्दा खाँ से परेशान होकर उसकी पत्नी द्वारा आत्म हत्या कर लेने के सम्बन्ध में थाना बिलसंडा पर मु०अ०सं० 584/2022 धारा 306 भादवि० बनाम बसीम उपरोक्त पंजीकृत कराया गया। मृतका गुलशन उपरोक्त के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाकर हत्या करना पाया गया। घटना की सत्यता जाने हेतु गांव में जानकारी की गयी तो पाया कि फैजान अली की पत्नी गांव के ही मेवाती बिरादरी के बसीम पुत्र बुन्दा खाँ से फोन पर बात करती थी दोनो के बीच प्रेम प्रसंग था। फैजान अली अपनी पत्नी से बसीम से बात करने के लिये मना करता था लेकिन वह नहीं मानती थी और चोरी छुपे बसीम से बात करती थी। इसी बात से परेशान होकर तथा गांव में बदनामी हो जाने के कारण फैजान अली ने गुस्से में आकर दिनांक 06.12.2022 को सुबह के समय अपनी पत्नी का गला रस्सी से दबाकर हत्या कर उसके शव को फांसी के फंदे पर लटका कर आत्महत्या करने की झूठी घटना बनाकर बसीम उपरोक्त को झूठा फंसाने की नियत से पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान फैजान अली के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या करना पाया गया जिसको आज दिनांक 10.01.2023 समय 13.02 वजे उसके मस्कन से गिरफ्तार किया तथा फैजान अली की निशादेही पर आला कत्ल एक रस्सी प्लास्टिक की बरामद की गयी। अभियुक्त फैजान अली उपरोक्त को जुर्म धारा 302/193/211 भादवि० में गिरफ्तार कर वास्ते रिमाण्ड हेतू मा०न्यायालय पीलीभीत भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

फैजान अली पुत्र कुर्वाण नि० ग्राम पहाडगंज थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत

बरामद आला कत्ल

एक अदद रस्सी (प्लास्टिक)

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थानाध्यक्ष अचल कुमार

हे०का० सुवोध कुमार

हे०का० राजेश कुमार